



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 29, 2007/चैत्र 8, 1929

No. 158]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 2007/CHAITRA 8, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2007

सं. 49/2007-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 258(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा ब्रह्म शक्तिर्यों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्समानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित की जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	74/2005-सीमाशुल्क, तारीख 22 जुलाई, 2005 [सा.का.नि. 499(अ), तारीख 22 जुलाई, 2005]	उक्त अधिसूचना में, प्रस्तावना में, अंक और शब्द "75 प्रतिशत" के स्थान पर अंक और शब्द "50 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
2.	75/2005-सीमाशुल्क, तारीख 22 जुलाई, 2005 [सा.का.नि. 500(अ), तारीख 22 जुलाई, 2005]	उक्त अधिसूचना में, प्रस्तावना में, अंक और शब्द "90 प्रतिशत" के स्थान पर अंक और शब्द "80 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 354/9/2004-टीआरयू (पार्ट)]

एस. बजाज, अपर सचिव

टिप्पण : 1. मूल अधिसूचना सं. 74/2005-सीमाशुल्क दिनांक 22 जुलाई, 2005, सा.का.नि. 499(अ), तारीख 22 जुलाई, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 136/2006-सीमाशुल्क, तारीख 30 दिसम्बर, 2006, सा.का.नि. 797(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2006 द्वारा किया गया था।

2. मूल अधिसूचना सं. 75/2005-सीमाशुल्क तारीख 22 जुलाई, 2005, सा.का.नि. 500(अ), तारीख 22 जुलाई, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 137/2006-सीमाशुल्क, तारीख 30 दिसम्बर, 2006, सा.का.नि. 798(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 2006 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2007

No. 49/2007-CUSTOMS

G.S.R. 258(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, shall be further amended in the manner and to the extent specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely :—

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	74/2005-Customs, dated the 22nd July, 2005 [G.S.R. 499(E), dated the 22nd July, 2005]	In the said notification, in the preamble, for the figures and words "75 per cent", the figures and words "50 per cent" shall be substituted.
2.	75/2005-Customs, dated the 22nd July, 2005 [G.S.R. 500(E), dated the 22nd July, 2005]	In the said notification, in the preamble, for the figures and words "90 per cent", the figures and words "80 per cent" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2007.

[F.No. 354/9/2004-TRU(Pt.)]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note: 1. The principal notification No. 74/2005-Customs, dated the 22nd July, 2005 was published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 499(E), dated the 22nd July, 2005 and was last amended by notification No. 136/2006-Customs, dated the 30th December, 2006, published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 797(E), dated the 30th December, 2006.

2. The principal notification No. 75/2005-Customs, dated the 22nd July, 2005 was published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 500(E), dated the 22nd July, 2005 and was last amended by notification No. 137/2006-Customs, dated the 30th December, 2006, published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 798(E), dated the 30th December, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2007

सं. 50/2007-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 259(अ).—जबकि, अधिहित प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित या वहाँ से निर्यातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2841 61 00 के अंतर्गत आने वाले पोटेशियम परमैंगनेट पर प्रतिपादन शुल्क जारी रखने के संबंध में, जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 113/2001-सीमाशुल्क, तारीख 1 नवम्बर, 2001 [सा.का.नि. 815(अ), तारीख 1 नवम्बर, 2001], भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 1 नवम्बर, 2001 में प्रकाशित द्वारा अधिरोपित किया गया था और जिसका भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 85/2003-सीमाशुल्क, तारीख 27 मई, 2003 [सा.का.नि. 436 (अ), तारीख 27 मई, 2003] द्वारा अतिक्रमण किया गया था और पुनः जिसका, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 14 सितम्बर, 2005 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 82/2005-सीमाशुल्क, तारीख 14 सितम्बर, 2005 [सा.का.नि. 585 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2005] द्वारा अतिक्रमण किया गया था, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i), तारीख 3 मार्च, 2006 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/5/2006-डीजीएडी द्वारा सनसेट समीक्षा प्रारंभ की है;

और, केन्द्रीय सरकार ने, संबद्ध देशों से निर्यात, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2006-सीमाशुल्क, तारीख 10 मार्च, 2006 [सा.का.नि. 154(अ), तारीख 10 मार्च, 2006] द्वारा संबद्ध माल पर, अधिरोपित प्रतिपादन शुल्क की अवधि 11 मार्च, 2007 तक बढ़ा दी है, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है;

और, जबकि, अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य से उद्गमित या वहां से निर्यातित संबद्ध माल पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने के संबंध में, निर्णायक समीक्षा अधिसूचना सं. 15/5/2006-डीजीएडी, तारीख 1 मार्च, 2007, जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 1 मार्च, 2007, में प्रकाशित हुई और जो कि अधिसूचना सं. 15/5/2006-डीजीएडी, तारीख 5 मार्च, 2007 के द्वारा संशोधित की गई, द्वारा इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

- (i) संबद्ध वस्तु का चीन जनवादी गणराज्य से भारत को निर्यात इसके सामान्य कीमत से कम पर किया गया है संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं का पाटन मार्जिन पर्याप्त है तथा न्यूनतम सीमा से अधिक है;
- (ii) प्रतिपाटन शुल्क हटाने से चीन से लगातार पाटन जारी रहने की आशंका है;
- (iii) घरेलू उद्योग को इस समय न्यूनतम वास्तविक क्षति होना जारी है और वर्तमान क्षति का बहुत अधिक कारण चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत प्रभाव के कारण है;
- (iv) घरेलू उद्योग को प्रतिपाटन शुल्क हटाने से लगातार पाटन और क्षति होती रहेगी।

और, अभिहित प्राधिकारी ने, घरेलू उद्योग की क्षति दूर करने हेतु, चीन जनवादी गणराज्य में मूल रूप से उद्गमित या वहां से निर्यातित संबद्ध माल पर प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने की सिफारिश की है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, अखिलेखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उद्गमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे सारणी पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में इंगित अवतरण मूल्य के बराबर की राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	माल की विशिष्टता	उद्गम देश	निर्यातक देश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2841 61 00	पोटेसियम परमैंगनेट	सभी श्रेणी	चीन जनवादी गणराज्य	कोई
2.	2841 61 00	पोटेसियम परमैंगनेट	सभी श्रेणी	चीन जनवादी गणराज्य	कोई
3.	2841 61 00	पोटेसियम परमैंगनेट	सभी श्रेणी	चीन जनवादी गणराज्य के के सिवाय कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य

उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन इकाई	करेंसी
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. मै. ग्रुपस्टार्स (यूनान), कैमिकल्स एलएलसी, चायना पी आर	मै. ग्रुपस्टार्स (यूनान), कैमिकल्स एलएलसी, चायना पी आर	123.51	मी. टन	अमरीकी डालर
2. कोई (उपर्युक्त के सिवाय कोई भी)	कोई	513	मी. टन	अमरीकी डालर
3. कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	513	मी. टन	अमरीकी डालर

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के तारीख से प्रभावी होगा तथा इसका प्रभाव पांच वर्ष तक रहेगा (यदि उसका खंडन, अधिकांश और संशोधन न किया जाये) और प्रतिपाटन शुल्क भारतीय करेंसी में रूपांतरित होगा।

अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, प्रतिपादन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खंड (क) की उप-खंड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करे हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनिमय दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/7/2001-टी.आर.यू. (पार्ट-I)]

एस. बजाज, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2007

No. 50/2007-CUSTOMS

G.S.R. 259(E).—Whereas, the designated authority, *vide* its notification No. 15/5/2006-DGAD, published in Part I, Section I of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 3rd March, 2006, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping on imports of Potassium Permanganate (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff heading 2841 61 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the Peoples Republic of China, imposed *vide* notification No. 113/2001 dated 1st November, 2001, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st November, 2001 *vide* No. G.S.R. 815(E), dated the 1st November, 2001, superseded by Notification No. 85/2003-Customs dated the 27th May, 2003, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 27th May, 2003 *vide* No. G.S.R. 436(E), dated the 27th May, 2003, subsequently superseded by Notification No. 82/2005-Customs dated the 14th September, 2005, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 14th September, 2005 *vide* No. G.S.R. 585(E), dated the 14th September, 2005;

And whereas, the Central Government has extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in, or exported from, the Peoples Republic of China up to and inclusive of the 11th day of March, 2007 *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 26/2006-Customs dated the 10th March, 2006, No. G.S.R. 154(E), dated the 10th March, 2006, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 10th March, 2006;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping on import of the subject goods, originating in, or exported from the Peoples Republic of China, the designated authority *vide* its final findings, No. 15/5/2006-DGAD dated the 1st March, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 1st March, 2007, as amended *vide* Notification No. 15/5/2006-DGAD, dated 5th March, 2007 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th March, 2007, has come to the conclusion that —

- (i) the subject goods have entered from the Republic of China at less than its normal value and the dumping margins of the subject goods imported from China are substantial and above de minimis;
- (ii) there is also a likelihood of dumping to continue from China, if the duties are revoked;
- (iii) the domestic industry continues to suffer marginal material injury at present and the cause of the current injury is overwhelmingly due to the volume as well as price effect of the dumped imports from the Republic of China;
- (iv) injury to domestic industry is likely to continue, if the duties are revoked;

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty against the subject goods originating in or exported from the Peoples Republic of China in order to remove injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff heading of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in column (4) of the said Table, originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), and exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at a rate which is equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (9), in the

currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Tariff heading	Description of goods	Specification of goods	Country of origin	Country of export
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2841 61 00	Potassium Permanganate (KmnO ₄)	All grades	People's Republic of China	Any
2.	2841 61 00	Potassium Permanganate (KmnO ₄)	All grades	People's Republic of China	Any
3.	2841 61 00	Potassium Permanganate (KmnO ₄)	All grades	Any other than People's Republic of China	People's Republic of China

Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measurement	Currency
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. M/s. Groupstar (Yunnan), Chemicals LLC, People's Republic of China	M/s. Groupstar (Yunnan), Chemicals LLC, People's Republic of China	123.51	MT	US\$
2. Any other combination of (other than above)	producer & Exporter,	513	MT	US\$
3. Any	Any	513	MT	US\$

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.—For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of Sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the relevant date for determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under Section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/7/2001-TRU (P-I)]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2007

सं. 51/2007-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 260(अ).—अभिहित प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 8708 70 00 के अंतर्गत आने वाले चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद विषयगत देश कहा गया है) में मूलतः उदरगमित या वहां से निर्यात किए गये फलैट बेस स्टील व्हील्स (जिसे इसके बाद विषयगत माल कहा गया है) के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 12 जनवरी, 2007 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना सं. 14/8/2005-डीजीएडी, तारीख जनवरी, 2007 जिसे संशोधित अधिसूचना सं. 14/8/2005-डीजीएडी, तारीख, 12 मार्च, 2007 के साथ पढ़ा जाए में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

- (क) संबद्ध देशों से निर्यातित अथवा वहां से मूल की संबद्ध वस्तु उसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत को निर्यात की गई है;
- (ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;
- (ग) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के घाटित आयातों द्वारा क्षति पहुंचाई गई है ;

1883 GI/07-2

और, अभिहित प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि अंतिम निर्धारण किए जाने तक संबंध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सभी आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, अधोलिखित सारणी के स्तंभ (4) में वर्णित देशों में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुमूची के उप-शीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है। जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है, और उक्त आयातित माल के, उसी करेंसी और प्रति मापन इकाई में व्यक्त हैं, अधिरोपित करती है।

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	उदगम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन इकाई	करेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	8708 70 00	स्टील व्हील्स नार्मिनल डायमीटर 16"—20"	चीन ज.ग.	चीन ज.ग.	मैसर्स जर्नजिंग व्हील ग्रुप कम्पनी	मैसर्स जर्नजिंग व्हील ग्रुप कम्पनी	310.70	मिट्रिक टन	अम.डा.
2.	वही	वही	चीन ज.ग.	चीन ज.ग.	किसी भी संयुक्त प्रकार के उत्पादक (उपयुक्त के सिवाय)		368.18	मिट्रिक टन	अम.डा.
3.	वही	वही	चीन ज.ग.	चीन ज.ग. के सिवाय कोई भी देश	कोई	कोई	368.18	मिट्रिक टन	अम.डा.
4.	वही	वही	चीन ज.ग. के सिवाय कोई भी देश	चीन ज.ग.	कोई	कोई	368.18	मिट्रिक टन	अम.डा.

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क भारतीय करेंसी में संदेय होगा।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू "विनिमय दर" वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खंड (क) के उप-खंड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और "विनिमय दर" के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/10/2007-टी.आर.यू.]

एस. बजाज, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2007

No. 51/2007-CUSTOMS

G. S. R. 260 (E).—Whereas, in the matter of import of Flat Base Steel Wheels (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub-heading 8708 70 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, (51 of 1975), originating in, or exported from, the Peoples Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) the designated authority, in its preliminary findings vide notification No. 14/8/2005-DGAD dated the 12th January, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 12th January, 2007, read with amendment notification No. 14/8/2005-DGAD dated the 12th March, 2007, has come to the conclusion that—

- (a) the subject goods have been exported to India from the subject countries below its normal value;
- (b) the domestic industry has suffered material injury;
- (c) injury has been caused by dumped imports from the subject country,

and has recommended imposition of provisional anti-dumping duty on all imports of the subject goods originating in or exported, from the subject country;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid preliminary findings, as amended, of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), when exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5) by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty which shall be equal to the amount specified in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table.

TABLE

S.No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amt.	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	8708 70 00	Steel wheels of nominal diameter 16"—20"	People's Republic of China	People's Republic of China	M/s. Zhengxing Wheel Group Co.	M/s. Zhengxing Wheel Group Co.	310.70	MT	USD
2.	-do-	-do-	-do-	-do-	Any combination of producer/ exporter (other than above)		368.18	MT	USD
3.	-do-	-do-	People's Republic of China	Any country other than People's Republic of China	Any	Any	368.18	MT	USD
4.	-do-	-do-	Any country other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any	Any	368.18	MT	USD

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be payable in Indian currency.

Explanation :— For the purposes of this notification, "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by Sub-clause (i) of Clause (a) of Sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the "relevant date" for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under Section 46 of the said Customs Act.

[F.No. 354/102007-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.